

दिनांक 03.01.2020 को श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में व श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में निरीक्षक श्री बाबूलाल प्रभारी ए०एच०टी०यू, श्री लीलाधर, श्रम प्रवर्तन अधिकार सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में ए०एच०टी०यू० टीम के साथ बाल भिक्षावृत्ति रोक-थाम हेतु अभियान चलाया गया। अभियान के अर्न्तगत बाल भिक्षावृत्ति करते हुये कोई बालक/बालिका नहीं मिले। जनपद में बढनी कस्बा से कुल 06 बच्चों को विभिन्न दुकानों में बाल श्रम करते हुये पाया गया। 06 बच्चों को आवश्यक कार्यवाही हेतु बाल कल्याण समिति, सिद्धार्थनगर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बाल कल्याण समिति, सिद्धार्थनगर द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

मु०अ०सं० 188/2020 धारा 323/504/506/308 IPC के अंतर्गत एक वाञ्छित अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही किया गया थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के दिशा-निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थनगर व क्षेत्राधिकारी महोदय बांसी के पर्यवेक्षण के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना खेसरहा श्री प्रदीप कुमार सिंह व पुलिस टीम खेसरहा द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. मुरली उर्फ मुराली साकिन बुढ़ी घोसियारी थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।

घटना का संक्षिप्त विवरण

प्रतिवादी उपरोक्त के द्वारा वादी को मारना पीटना, गाली गुप्ता देना तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में।

गिरफ्तारी का स्थान व समय-----

कस्बा लक्ष्मीगंज तिराहा समय 07.15 बजे।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. उ०नि० राजेश कुमार तिवारी थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।
2. हे०का० रमेश यादव थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।
3. हे०का० हीरानंद यादव थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।
4. का० शैलेंद्र कुमार सिंह थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 04-01-2020

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश एवं श्री प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में व श्री जयप्रकाश दूबे थानाध्यक्ष के कुशल नेतृत्व में थाना मोहाना पुलिस व एसएसबी के टीम के साथ संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग के दौरान एक व्यक्ति को 181.150 ग्राम कोकीन के साथ ग्राम निरंजनपुर नेपाल बार्डर के पास से गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सत्यप्रकाश मौर्य पुत्र स्व0 जगदीश मौर्य निवासी ब्लाक नं0 20 कमरा नं0 229 काशीराम कालोनी थाना व जिला सिद्धार्थनगर स्थाई पता ग्राम आमाकोट थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज।

बरामद माल का विवरण –

1. 181.150 ग्राम कोकीन किमती 80 लाख रुपये।
2. एक अदद मोबाईल MI – Y1 किमती 5000 रुपये।
3. एक अदद विक्रम टेम्पू नं0 UP55T1362 किमती 50,000 रुपये।
4. 2100 रुपये नगद।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. थानाध्यक्ष श्री जयप्रकाश दूबे थाना मोहाना जिला सिद्धार्थनगर।
2. उ0नि0 श्री शिवनारायण सिंह थाना मोहाना जिला सिद्धार्थनगर।
3. का0 दीपक गोविन्द राव थाना मोहाना जिला सिद्धार्थनगर।
4. का0 शिवानन्द धर दूबे थाना मोहाना जिला सिद्धार्थनगर।
5. का0 सुशील कुमार राय थाना मोहाना जिला सिद्धार्थनगर।
6. का0 हरेराम यादव थाना मोहाना जिला सि0नगर
7. ASI लोभ जंग दुर्जे SSB ककरहवा जिला सि0नगर
8. HC गौरव कहार SSB ककरहवा जिला सि0नगर
9. HC मोहम्मद गुफरान खान SSB ककरहवा जिला सि0नगर
10. का0 रमेश चौरसिया SSB ककरहवा जिला सि0नगर
11. का0 जयप्रकाश SSB ककरहवा जिला सि0नगर

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 04-01-2020

आज दिनांक 04.01.2021 को श्री रामअभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थनगर के आदेश पर एवं श्री मायाराम वर्मा अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर व श्री प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अभियान में श्री राहुल सिंह यादव प्रभारी निरीक्षक उसका बाजार के नेतृत्व में थाना उसका बाजार पुलिस द्वारा मु.अ.सं. 03/2021 धारा 4/25 आयुध अधिनियम के तहत 01 नफर अभियुक्त रामकुमार पुत्र रामकरन सा.चौरई थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अदद चाकू नाजायज वरामद किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ.नि. श्री सुरेश कुमार यादव थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।
2. हे.का. रामनाथ थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।
3. का.बबलू यादव थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।

थाना त्रिलोकपुर पर शिकायत हेतु आई महिला को महिला हेल्प डेस्क अधिकारी ने भेंट किया कंबल ।

आज दिनांक 04.01.2021 को थाना क्षेत्र त्रिलोकपुर के ग्राम पेड़ारी की निवासी महिला रूपई पत्नी जंगीर गिरी थाने पर शिकायत लेकर आई श्री रणधीर कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक त्रिलोकपुर उक्त महिला को महिला हेल्प डेक्स पर तैनात महिला आरक्षी दिव्या सिंह द्वारा ठण्ड को देखते हुये कम्बल भेंट किया गया । जिस पर उक्त महिला ने भाव विभोर होकर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुये अपने घर गई ।

#siddharthnagpol दिनांक 04-01-2021 को जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा किये गया सराहनीय कार्य ।

@Uppolice @AdgGkr @digbasti @dmsid1 @Cdosid1